



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1946 (श10)  
(सं0 पटना 556) पटना, बुधवार, 26 जून 2024

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना

21 जून 2024

सं० कारा/स्था0(अधी0) 01-04/2024/4714—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-97 दिनांक-16.02.2024 द्वारा बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतन स्तर-9 में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य जीवन भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान काराधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	संयुक्त मेधाक्रम	आरक्षण कोटि	आवंटित आरक्षण रोस्टर रिक्ति अनारक्षित
1	श्री आकाश रंजन (रौल नं०-158446)	पटना	93	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

2. पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।

3. अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई भी की जायेगी।

4. नव नियुक्त पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

5. श्री रंजन को यह निदेश दिया जाता है कि वे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना योगदान महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। तत्पश्चात् उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु संलग्न कारा में योगदान करने के लिए विरमित किया जायेगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

6. प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में वांछित कागजात यथा—सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शपथ पत्र/शैक्षणिक/जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र/प्रवेश पत्र/पूर्व सेवा से संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/बी.पी.एस.सी. द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र इत्यादि समर्पित नहीं किया है, वैसे अभ्यर्थी योगदान के समय उक्त वांछित कागजात निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. श्री रंजन को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे मूल रूप से संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. श्री रंजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

9. योगदान के समय श्री रंजन को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार श्री रंजन पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रजनीश कुमार सिंह,  
अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 556-571+50-डी०टी०पी०  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>